

# विनायक सुनलो करुण पुकार | by Astro Friend Deepak

विनायक सुनलो विनय पुकार  
मेरे अब पूरण कीजे काज

महादेवा के सुत हो देवा  
सब गण के गणपति हो देवा  
करते हैं हम तेरी सेवा  
भोग लगावे मोदक मेवा  
पूरण कीजे काज .....  
विनायक सुनलो.....

एक दन्त मूसे की सवारी  
भक्तों के हित मंगलकारी  
आएगी कब मेरी बारी  
भव सागर के तारनहारी  
नैया कर दो पार  
विनायक सुनलो.....

लम्बोदर सो मोहक ना कोए  
माला मुकुट सिंहासन सोहे  
जिनपे कृपा इनकी होय  
विघ्न अनिष्ट की चिंता खोये  
ऐसे हैं गजराज  
विनायक सुनलो.....

<https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%b2%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%a3-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-by-astro-frien/>